



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2018/ज्येष्ठ 21, 1940

No. 390]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2018/JYAISTHA 21, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

**सा.का.नि. 542(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, निदेशक (बागवानी) के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, निदेशक (बागवानी) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (बागवानी)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय	स्तर – 12 (78800-209200रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य बर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक बर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
समग्र पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति]	<p><b>I. प्रतिनियुक्ति : (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) बागवानी में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुष्पकृषि, सब्जी उत्पादन या फलकृषि विज्ञान के साथ बागवानी में मास्टर डिग्री या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) कम से कम पांच वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ सजावटी बागवानी या भूदृश्य निर्माण के साथ बागवानी में दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विभिन्न स्मारकों और विरासत स्थलों में वनस्पति संबंधी पहचान और विकास अवधि का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ऐसे विभागीय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ पर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत</p>

	अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
<b>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है</b>	<b>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</b>
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 3-2/2017-योजना एवं एचआरडी (भर्ती नियम)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

**MINISTRY OF CULTURE**  
(ARCHEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2018

**G.S.R. 542(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Horticulture) in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Director (Horticulture) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** —No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party of the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** -- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Director (Horticulture).	1* (2018). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial.	Level 12 (Rs.78800-209200).

Whether Selection post or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct Recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	By composite method [deputation (including short term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>I. Deputation (including short term contract)</b> Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute or Research Institution; (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or  (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 11 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (B) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Master's degree in Agriculture with specialization in Horticulture or Master's degree in Horticulture with Floriculture, Olericulture or Pomology from a recognised University or Institute;  or  Master's Degree in Botany or Agriculture Botany from a recognised University or Institute; and (ii) Ten years experience in Horticulture including ornamental gardening or landscaping with at least five years of administrative experience. <b>Desirable:</b> Experience of identifying and developing period related flora in respect of various monuments and heritage sites.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental Chief Horticulturist in level-11 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience specified for considering appointment on deputation is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

<b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. 3-2/2017-Plg. &amp; HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)